

आर्थिक विचारों

का

विकास

89

20.9
मते/आ-9

अलेख कुमार
एम. ए.

आर्थिक विचारों का विकास

(The Development of Economic Doctrines)

लेखक

श्री यतेंद्र कुमार

एस० ए०

भू० पू० अर्थशास्त्र-प्रवक्ता विद्या भवन

प्रणेता

माध्यमिक अर्थशास्त्र, (सं०) आर्थिक विचारों का विकास,
शेन्नी, कीट्स, नये बोल, आदि आदि ।

प्रकाशक

भारत प्रकाशन मन्दिर, अलीगढ़